

# सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र

ब्लॉक - जे.डी., सेक्टर - III, साल्ट लेक, कोलकाता - 700106

वेबसाइट- [www.bose.res.in](http://www.bose.res.in)

## विज्ञापन

सं.: एसएनबी/60.4/16-17/015

दिनांक: 27/11/2016

सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान, भातीय नागरिकों से “कनिष्ठ संगणक अभियंता” के संविदात्मक पद हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :

- **अर्हता:** बी.ई. / कम्प्यूटर विज्ञान में बी. टेक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग (एमसीए) में मास्टर डिग्री / कम्प्यूटर विज्ञान में एमएससी / सूचना तकनीकी / प्रख्यात संस्थान/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए ।

**अनुभव:** उम्मीदवार के पास लीनक्स सर्वर प्रबंधन में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में कुछ अनुभव होना चाहिए:

- नेटवर्क, फायरवाल प्रबंधन तथा समस्या-निवारण
- डीएचसीपी, डीएनएस, ई-मेल तथा वेब सर्वर होस्टिंग
- वेब तथा नेटवर्क सुरक्षा

केवल विंडो प्रशासन में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

**कार्य की प्रकृति:** व्यक्ति केंद्र के नेटवर्क विस्तारण, विन्यास, रख-रखाव तथा समस्या निवारण; तथा सर्वर प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा । व्यक्ति को संगणनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी तथा आंतरिक संगणनात्मक अवसंरचना के 24×7 निर्विघ्न प्रचालन का ध्यान रखना होगा ।

इसके साथ ही, उम्मीदवार को अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करना होगा तथा समय समय पर दी जाने वाली रूटीन कार्यों की जिम्मेदारी जिसमें विन्यास, रख रखाव, उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग तथा विंडोज से संबन्धित कार्य शामिल है, को बांटना होगा ।

**उम्र:** विज्ञापन के प्रकाशन के दिन 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

**वेतन:** लगभग 32,805/- रु. प्रति माह (समेकित)

आरंभ में संविदा की अवधि केवल एक वर्ष की होगी । प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति को नवीकृत किया जा सकता है ।

**टिप्पणी:** कनिष्ठ संगणक अभियंता के लिए विज्ञापन सं.:एसएनबी/60.4/16-17/001 दिनांक: 17-04-2016 को निरस्त माना जाएगा ।

इच्छुक उम्मीदवार कुलसचिव, सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, ब्लॉक - जे.डी., सेक्टर - III, साल्ट लेक, कोलकाता - 700106 पर विस्तृत सार-वृत्त जिसमें वर्तमान में मिलने वाले वेतन का उल्लेख हो साथ में निम्नलिखित दस्तावेजों के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि : (क) उम्र का प्रमाण (ख) पहचान प्रमाण (ग) दावा किए गए शैक्षिक, वृत्तिक अर्हताएँ तथा अनुभव के साथ आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिन के अंदर पहुँच सके । लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में 'कनिष्ठ संगणक अभियंता पद हेतु आवेदन' लिखा होना चाहिए । अपूर्ण आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा ।

कुलसचिव

उपरोक्त विज्ञापन का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित समाचारपत्रों में 27/11/2016 को प्रकाशित है:

1. आनंद बाज़ार पत्रिका (कोलकाता संस्करण)
2. द टेलीग्राफ (कोलकाता संस्करण)
3. टाइम्स ऑफ इंडिया (कोलकाता संस्करण)
4. सन्मार्ग (कोलकाता संस्करण)